

MOUNT HOUSING AND INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L45201TZ1995PLC00651 Regd. Office: 122 I, Silver Rock Apartment, 2nd Floor, Venkalasasmy Road West, R.S. Puram, Coimbatore-641002.
Tel: +91.422.4973111, E- mail: mount@mounthousing.com, Website: www.mounthousing.com

| EXT        | EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 |                       |         |         |  |  |  |
|------------|--|-----------------------|---------|---------|--|--|--|
| (F         |  |                       |         |         |  |  |  |
| SI.<br>No. | Particulars  | Year ended 31.03.2023 |         |         |  |  |  |
|            |  | Unau                  | ıdited  | Audited |  |  |  |
| 1.         | Total Income   | 9.41                  | 1.08    | 190.56  |  |  |  |
| 2.         | Net Profit / (Loss) before tax   | (36.25)               | (41.62) | 14.24   |  |  |  |
| 3.         | Net Profit / (Loss) after tax  | (35.30)               | (41.03) | 10.36   |  |  |  |
| 4.         | Total Comprehensive Income   | (35.30)               | (41.03) | 10.36   |  |  |  |
| 5.         | Paid up Equity Share Capital   | 302.87                | 302.87  | 302.87  |  |  |  |
| 6.         | Earnings per share (of Rs.10/- each)                                       |                       |         |         |  |  |  |
|            | 1. Basic:  | (0.12)                | (0.14)  | 0.34    |  |  |  |
|            | 2. Diluted:  | (0.12)                | (0.14)  | 0.34    |  |  |  |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financia Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and the Company www.mounthousing.com

For Mount Housing and Infrastructure Limited Ramesh Chand Bafna Managing Director (DIN:02483312) 14.08.2023

# Hindusthan National Glass & Industries Limited

CIN: L26109WB1946PLC013294 Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001, India | Tel: (91)(33)2254-3100

Fax (91)(33)2254-3130 | Email: cosec@hngil.com | Website: www.hngil.com Information Regarding 77th Annual General Meeting

Members are hereby informed that the 77<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the Company will be held on Tuesday, 12<sup>th</sup> September, 2023 at 11.30 a.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs

Government of India and Securities and Exchange Board of India.

The Notice convening the 77th AGM along with Annual Report of the Company will be sent to the Shareholders in accordance with the applicable laws/circulars on their e-mail ids registered with the Depository Participants (DPs)/the Company in due course and will also be made available on Company's website i.e. www.hngil.com and on the website of the BSE, NSE & CSE where the Company's shares are listed.

reholders who have not yet registered their email addresses are requested to registe with their DPs, in case the shares held are in dematerialized form, and

 with our Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Maheshwari Datamatics Private Limited (MDPL), in case the shares are held in physical form, Members are requested to visit the website of the RTA at http://www.mdpl.in and fill form ISR 1, ISR 2, ISR 3/SH 13/5H 14 for updating their PAN, Bank details, Signature, Mobile number, Nominee, Email id and Address. The shareholders are also requested to submit the documents at the office of the RTA at 23, R.N. Mukheriee Road, 5th Floor, Kolkata 700001 along with documents as required therein. An E-mail Registration-cum-Consent Form will also be enclosed with notice of the 77th AGM.

Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely or during the AGM on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

For Hindusthan National Glass & Industries Ltd

Place: Kolkata Dated: 08.08.2023

(Pritha Bose) Company Secretary and Compliance Officer



# Carrier Airconditioning & Refrigeration Ltd

Registered Office: Narsingpur, Kherki Daula Poet, Gurgaon 122001, Haryana (India) Phone: +91-124-4825500, Fax: +91-124-2372230

Website: www.carrierindia.com Email: secretarial@carrier.com NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM"),

REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM
INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE

- The 31st Annual General Meeting ("AGM") of Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited ("the Company") will be held on Friday, 8 September, 2023 at 12:00 P.M. IST (Indian Standard Time) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") i mpliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder, read with General Circular No 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 and General Circular No. 20 Circular No. 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022 and all other applicable circulars ("Circulars") issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") to ransact the businesses set out in the Notice calling the 31th AGM. The Members participating through VC / OAVM facility shall be reckoned fo the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.
- In compliance with the relevant Circulars, the Notice of the AGM along wit the Annual Report for the Financial Year ended 31st March. comprising the Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, has been sent or 16th August, 2023 to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) ("DP"). aforesaid documents shall also be available on the website of the Company at https://www.carrier.com/commercial/en/in/investor and also on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at https://www.evotingindia.com/. Physical copies of the aforesaid documents are not being sent to the shareholders in accordance with the aforesaid Circulars.
- Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:
- The Company is providing to its members facility t to vote on resolutions proposed to be passed at 31st AGM by electronic means. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the 31" AGM ("e-voting") and members attending the AGM who have not casted their vote(s) by remote e-voting will be able to vote(s) at the 31st AGM through e-voting The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited as the agency to provide remote e-voting and e-voting facility.
- ii.) Information and instructions including details on how to generate user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the 31st AGM through VC / OAVM. The manner of remote e-voting and e-voting during 31st AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company at https://www.carrier.com/commercial/en/in/investor. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

| Commencement of        | Tuesday, 5 <sup>th</sup> September, 2023                  |
|------------------------|---|
| Remote e-voting        | at 9:00 A.M   |
| End of Remote e-voting | Thursday, 7 <sup>th</sup> September, 2023<br>at 5:00 P.M. |

- iii.) The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i. e Friday, 1"September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation & e-voting at the 31st AGM. The Share Transfer Books and Register of Members of the mpany will remain closed from Saturday, 2nd September, 2023 till
- Friday, 8th September 2023 (both days inclusive). Manner of registering / updating email addresses is as below:
- Members holding shares in physical mode who have not registered updated their email addresses with the Company and / or Registrar & Transfer Agent of the Company can register / update their email addresses and obtain Notice of 31st AGM, Annual Report and / or login details for joining the 31st AGM through VC / OAVM facility by sending scanned copy of a signed request letter mentioning their name, folio no and address, self-attested copy of the PAN Card & address proof (e.g Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) by emai to the Company at secretarial@carrier.com or to Registrar & Transfe Agent of Company at admin@mcsregistrars.com. Members holding shares in dematerialized mode who have not registered / updated their email addresses with the Depository Participant(s) are requested to register / update their email addresses with their Depositor Participant(s).
- Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the "User ID" and "password" in the manner as provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website. Such members may cas their vote(s) using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM. The members who would have casted their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM Once the vote is casted by the member, the same shall not be allowed office the voice is casted by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently or cast again. In case of any queries on issues regarding attending AGM, e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://www.evotingindia.com/ under help section or write to Mr. Aia Dalal, Sr. Manager, MCS Share Transfer Agents Limited, F-65, 1st Floor Okhla Industrial Area, Phase - I. New Delhi - 110020, India: Email admin@mcsregistrars.com; Phone: 011-41406149 to 52 or to secretarial@carrier.com or contact the following officials of CDSL Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022 23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

Place: Gurugram

Date: 18th August, 2023

By the order of the Board For Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited **Anurag Gupta** Company Secretary

M. No. A43500

August 17, 2023

Amsterdam, The Netherlands



Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001, India Tel.: +91 22 6665 8282 Email: cosec@tatasteel.com Website: www.tatasteel.com CIN: L27100MH1907PLC000260

### **FORM NO. CAA-2**

[Pursuant to Section 230(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, MUMBAI BENCH

COMPANY SCHEME APPLICATION NO. CA(CAA)/138/MB-IV/2023

IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013, READ WITH THE COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016

AND

IN THE MATTER OF THE SCHEME OF AMALGAMATION AMONGST TATA STEEL LIMITED AND TRF LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS

#### **Tata Steel Limited**

A company incorporated under the provisions of the Indian Companies Act, 1882 and a public limited company within the meaning of the Companies Act, 2013, and having its CIN: L27100MH1907PLC000260 and its Registered Office at Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai 400 001, Maharashtra

....Transferee Company

### NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF TATA STEEL LIMITED

Notice is hereby given that, by an Order dated August 2, 2023, in the Company Scheme Application No. CA(CAA)/138/MB-IV/2023 ('Order'), the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ('Hon'ble Tribunal'/'NCLT') has directed, inter alia, that a Meeting of the equity shareholders of Tata Steel Limited ('Transferee Company' or 'Company') be convened and held on Monday, September 18, 2023 through video-conferencing or other audio-visual means ('VC/OAVM') ('Meeting') to consider and if thought fit, to approve, with or without modification(s), the Scheme of Amalgamation amongst Tata Steel Limited and TRF Limited and their respective shareholders ('Scheme').

Pursuant to the Order of the NCLT as directed therein, the Company is convening the Meeting of the equity shareholders, on Monday, September 18, 2023, at 4.30 p.m. (IST) through VC/OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and other applicable Rules, the applicable general circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs for conducting general meeting through VC/OAVM and providing e-voting facility to the shareholders, Regulation 44 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') read with other applicable SEBI Circulars and Secretarial Standard on General Meetings as issued by The Institute of Company Secretaries of India ('SS-2').

The Company has completed the dispatch of the aforementioned Notice dated August 15, 2023 along with (1) the Statement as required under Section(s) 102, 230 to 232 and other applicable provisions of the Act, read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, the SEBI Listing Regulations and other applicable SEBI Circulars and (2) the related Annexures to the said Notice, on Thursday, August 17, 2023, only by electronic mode to those members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depositories/Depository Participant ('DPs')/Registrar and Transfer Agent of the Company - TSR Consultants Private Limited ('RTA'), and whose names appear in the Register of Members including Index of Beneficial Owners (as furnished by the Depositories) as on Friday, August 11, 2023.

A copy of the said Notice along with the Statement and related Annexures including the Scheme is made available on the website of the Transferee Company at www.tatasteel.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com Additionally, the Notice is also available on the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and that of SEBI at www.sebi.gov.in

In case any Member wishes to receive a physical copy of the Notice, Statement and other related Annexures, a request may be sent to the Company at cosec@tatasteel.com and the Company will arrange to send the same at the registered address of the Member. Alternatively, the Member can be obtain the above-mentioned documents free of charge on all working days (except Saturday, Sunday and public holidays), from the Registered Office of the Company at Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai 400 001, Maharashtra between Friday, August 18, 2023 and Sunday, September 17, 2023 from 10:30 a.m. (IST) to 4:00 p.m. (IST).

The electronic copy of the documents for inspection as mentioned in the Notice are available under 'Investors' section on the website of the Company at www.tatasteel.com

As this Meeting is being held through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members of the Transferee Company is not available at this Meeting.

As per the directions of the Hon'ble Tribunal, Mr. Deepak Kapoor, Independent Director and Chairman of the Audit Committee of the Company has been appointed as the Chairperson of the NCLT convened Meeting

The Scheme, if approved by the requisite majority of Equity Shareholders of the Company as per Section 230(6) of the Act read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/93 dated June 20, 2023 ('SEBI Scheme Circular') and other applicable SEBI Circulars, if any, will be subject to subsequent approval of the Hon'ble Tribunal and such other approvals, permissions and sanctions from any other regulatory or statutory authority(ies) as may be deemed necessary.

In compliance with the provisions of the Order of NCLT and Section 108, and other applicable provisions of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 and other applicable provisions of the SEBI Listing Regulations read with SEBI Scheme Circular, SS-2, and in accordance with the requirements prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for holding general meetings over VC/OAVM through e-voting, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting prior to the Meeting and evoting during the Meeting through the facility provided by NSDL. The detailed procedure for attending the Meeting through VC/OAVM and e-voting forms part of the Notes to the Notice of the Meeting.

Some of the important details regarding remote e-voting are provided as below:

| EVEN                                   | 125127  |  |
|--|---|--|
| Cut-Off date for E-Voting              | Monday, September 11, 2023                    |  |
| Commencement of remote e-voting period | Thursday, September 14, 2023 at 9.00 am (IST) |  |
| End of remote e-voting period          | Sunday, September 17, 2023 at 5.00 pm (IST)   |  |

The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The Company is also providing the facility of e-voting at the Meeting.

The voting rights of the Members will be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date i.e. Monday, September 11, 2023. A person whose name is recorded in the Register of Members maintained by the Company/RTA or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date only shall be entitled to vote

Members will be provided with the facility for e-voting during the Meeting and those who have not already cast their vote on the resolution by remote e-Voting (prior to the Meeting) will be eligible to exercise their right to vote on such resolution at the Meeting. Members who have cast their vote on resolution by remote e-Voting prior to the Meeting will also be eligible to participate at the Meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution again. The e-Voting module on the day of the Meeting shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.

Any person who acquires the shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Cut-Off Date and wishes to view the proceedings of the Meeting may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or request Company/RTA for the same. However, such person shall not be entitled to vote on the Resolution (prior to as well as during the Meeting).

Process to be followed for one-time registration of e-mail address (for shares held in physical form or in electronic form) is as follows:

Members whose e-mail addresses are not registered with the Company/DPs/RTA, may follow the process given in the 'Notes' section of the Notice and get their email address registered with RTA on or before 5.00 pm (IST) on Friday, September 8, 2023, to receive the Notice, the procedure for remote e-voting along with login ID and password for remote e-voting. The summary of the process is as below:

- a) Visit the link: https://tcpl.linkintime.co.in/EmailReg/Email\_Register.html
- b) Select the name of the Company from drop-down: Tata Steel Limited
- c) Enter details in respective fields such as DP ID and Client ID (if shares held in electronic form) / Folio no. and Certificate no. (if shares held in physical form), Shareholder name, PAN, mobile number and e-mail id
- d) System will send One Time Password ('OTP') on mobile no. and e-mail id
- e) Enter OTP received on mobile no. and e-mail id and submit

After successful registration of the e-mail address, NSDL will send a copy of the Notice along with login ID and password for remote e-voting to the e-mail address so registered. In case of any queries, Members may write to csg-unit@tcplindia.co.in or evoting@nsdl.co.in

Further, any shareholder(s) holding shares in physical form or shareholders who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the Cut-Off Date i.e. Monday, September 11, 2023, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contacting the RTA. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then the Members can use their existing User ID and password for casting the vote. Further details of the same are mentioned in the 'Notes' section to the Notice. Members are requested to read the same carefully.

The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. P. N. Parikh (Membership No. FCS 327 and CP No. 1228), failing him, Ms. Jigyasa Ved (Membership No. FCS 6488 and CP No. 6018), failing her, Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS 8331 and CP No. 9511), of M/s Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer of the Transferee Company to scrutinize the remote e-voting process as well as e-voting during the Meeting in a fair and transparent manner and submit a report on the votes cast to the Chairperson of the Meeting or to any person so authorized by the Chairperson, within two working days of the conclusion of the Meeting.

The results of the voting shall be displayed at the registered office of the Company as well as on the website of the Company at www.tatasteel.com and at NSDL website at www.evoting.nsdl.com besides being sent to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited on the said date.

In case of any queries/grievances, Members may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available in the 'Download' section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager from NSDL at the designated e-mail IDs: amitv@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in

For Tata Steel Limited Sd/-

DIN: 00162957

**Deepak Kapoor** Chairperson appointed for the Meeting

भारतीय लघ् उद्योग विकास बैंक (सिडबी) सूचना प्रणाली लेखा परीक्ष करने हेतु प्रतिष्ठित एजेन्सियों से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RfP) करत है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा 08 सितम्बर 2023 अधिकतम 15:00 बजे तक है।

विस्तृत निविदा दस्तावेज के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.sidbi.in या eprocure.gov.in/cppp या GeM Portal देखें ।

परिशिष्ट / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, तो उपर्युक्त वेबसाइटों में ही प्रकाशित किया जाएगा।

# अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण हेत् मेसर्स असल क्राउन इफ्राबिल्ड प्राईवेट लिमिटे नत्तत अतल क्राउन इक्राबल्ड आइयट ालानट्ड कार्यालयः 118, यूएफएफ, प्रकाश दीप बिल्डिंग 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली—110001 में रियल एस्टेट व्यवसाय में कार्यरत

|   |   | पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया संकल्प प्रक्रिया)<br>के विनियम 36ए(1) के तहत)   |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | संबंधि  | त विवरण  |  |  |
| 1.  | कारपोरेट देनदार का नाम<br>पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. सहित  | मेसर्स अंसल क्राउन इंफ्राबिल्ड प्रा. लि.<br>(सीआईएनः U45201DL2006PTC147058)  |  |  |
| 2.  | पंजीकृत कार्यालय का पता   | पंजीकृत कार्यालय पताः 118, यूएफएफ, प्रकाश दीए<br>बिल्डिंग 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली—110001<br>प्रोजैक्ट अंसल क्राउन हाईट्स, सेक्टर 80, फरीदाबाद<br>हरियाणा—121002 |  |  |
| 3.  | वेबसाइट का यूआरएल   | www.ansalcrownheights.net  |  |  |
| 4.  | स्थान जहाँ अधिकांश स्थिर<br>परिसंपत्तियाँ स्थित हैं   | अंसल क्राउन हाईट्स, सेक्टर 80, फरीदाबाद, हरियाणा<br>—121002  |  |  |
| 5.  | मुख्य उत्पादों / सेवाओं<br>की इंस्टाल्ड क्षमता  | रियल एस्टेट प्रोजैक्ट— अंसल क्राउन हाईट्स, सेक्टर<br>80, फरीदाबाद, हरियाणा—121002  |  |  |
| 6.  | अंतिम वित्तीय वर्ष में बिक्री मुख्य   | विवरण cirp.ansalcrown@gmail.com पर ईमेल  |  |  |
|   | उत्पाद / सेवाओं की मात्रा और मान  | भेजकर मांगा जा सकता है।  |  |  |
| 7.  | कर्मचारी / कारीगरों की संख्या   |  |  |  |
| 8.  | दो वर्ष के अंतिम उपलब्ध वित्तीय<br>विवरण (अनुसूचियों सहित), लेनदारों की<br>सूची, प्रक्रिया की आगामी घटनाओं के<br>लिए संबंधित तिथियों सहित विस्तृत<br>विवरण उपलब्ध है: | अधिक विवरण cirp.ansalcrown@gmail.com पर<br>ईमेल भेजकर मांगा जा सकता है।  |  |  |
| 9.  | कोड की धारा 25(2)(एच) के तहत<br>संकल्प आवेदकों की पात्रता<br>उपलब्ध है:   | संभावी संकल्प आवेदक के लिए पात्रता मानदंड<br>cirp.ansalcrown@gmail.com पर ईमेल भेजकर<br>प्राप्त किया जा सकता है।   |  |  |
| 10.   | अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की<br>अंतिम तिथि   | 01/09/2023   |  |  |
| 11.   | . संभावी संकल्प आवेदकों की<br>अनंतिम सूची के निर्गम की तिथि   |  |  |  |
| 12. अनंतिम सूची को आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16/09/2023 |   |  |  |  |
| 13.   | ईओआई जमा करने की ईमेल आईडी  | cirp.ansalcrown@gmail.com  |  |  |
|   |   |  |  |  |

Carrier

केरियर एयरकंडीशिनिंग एवं रेफ्रिजरेशन लि. सीआईएनः U74999HR1992FLC036104

पंजीकृत कार्यालयः नरसिंहपुर, खेरकी धौला पोस्ट, गुड़गाँव 122 001, हरियाणा (भारत) फोन: +91-124-4825500: फैक्स: +91-124-2372230 वेबसाइटः www.carrierindia.com, ईमेलः secretarial@carrier.com

# 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), रिमोट ई—वोटिंग, एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की जानकारी तथा पुस्तकें बंद होने की सूचना

दिनांकः **17.08.202**:

स्थानः नई दिल्ली

- कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 8 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे आईएसटी (भारतीय . मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**''वीसी''**)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमं ("ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सभी लाग् . प्रावधानों और सामान्य परिपत्र संख्या के साथ पढ़े गए नियमों के अनुपालन में 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं0 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं0 20 / 2020, दिनांक 5 मई, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं0 10 / 2022 दिनांव 28 दिसंबर, 2022 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य लाग परिपत्र ("परिपत्र") 31वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन करने के लिए आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने वे उद्देश्य से गिना जाएगा।
- प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरण के साथ एजीएम की सूचना बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज 16 अगस्त 2023 को कम्पनी के सदस्यों को भेज दिया गय जिनके (ईमेल पते कम्पनी / डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के पास पजीकृत है। उत्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.carrier.com/commercial/ en/in/investor तथा सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल" की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर भी उपलब्ध होंगे। उपरोत्त परिपत्रों के अनुसार शेयरधारकों को उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी ज

# एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग के लिए निर्देश:

- i.) कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से 31वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर मत देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही हैं। सदस्य नीचे दी गई तिथियों पर केन्द्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज (इडिया) लिमिटेड के इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके अपने मत को दूर से डाल सकते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम स मतदान की सुविधा भी 31वीं एजीएम ("**ई—वोटिंग"**) और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मत 31वी एजीएम में नहीं डाला है। कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इडिया) लिमिटेड की सेवाओं को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में शामिल किया है।
- ii.) ई-वोटिंग से संबंधित उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के माध्यम र सदस्यों को भेजे गए है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वहीं लॉग इन क्रेडेशियल का उपयोग करें। डिमैटलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं उन्हें 31वीं एजीएम के दौरान रिमोट-बोटिंग और ई-बोटिंग का तरीका एजीएम की सचना में प्रदान किया है और यह कम्पनी की वेबसाइट https://www.carrier. com/commercial/en/in/investor पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-बोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

| रिमोट ई—वोटिंग की शुरुआतः  | मंगलवार, 5 सितम्बर, 2023<br>को प्रातः 9:00 बजे   |
|----------------------------|--|
| रिमोट ई—वोटिंग की समाप्तिः | बृहस्पतिवार, 7 सितम्बर, 2023<br>को शाम 5:00 बजे। |

iii.) रिमोट ई-वोटिंग की उक्त तिथि और समय के उपरांत अनुमित नहीं दी जायेगी और रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को सीडीएसएल द्वारा उक्त तिथि की अवधि की समाप्ति व बाद अक्षम कर दिया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट—ऑफ तिथि. शक्रवार 1 सितम्बर, 2023 की तिथि तक डिपोजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में या रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स में दर्ज किया गया है, केवल वे ही 31वीं एजीएम में ई-वोटिंग और भागीदारी या रिमोट-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए हकदार होगें। कंपनी के शेयर हस्तांतरण किताबें और सदस्यों के रजिस्टर शनिवार 2 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद

# ई-मेल पतों को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका निम्नानुसार है:

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी या अथवा कंपनी के ट्रॉस्फर एजेंट के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत / अद्यतन नहीं कराए हैं। वे बीसी ओएवीएम के माध्यम से 31वीं एजीएम में शामिल होने के लिए तय 31वीं' एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और / अथवा लॉग–इन विवरण प्राप्त करने के लिए अपने ई–मेल पर्ते पंजीकृत / आद्यतन करा सकते हैं, एक हस्ताक्षित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेजना होगा जिसमें उनका नाम फोलियों सख्या और पता पैन कार्ड की स्व-इस्ताक्षरित कॉपी तथा पते का पफ (जैसे क्रि आधार कार्ड ड्रॉविंग लाइसेंस, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट) हो, उसे कंपनी के अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट को ई-मेल secretarial@ carrier.com पर दे। सदस्य जिन्होंने शेयर डिमैटिरियलाइज्डे मोड में रखे हैं और अपने ई–मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास उनसे अनुरोध है, कि अपने ई–मेल admin@mcsregistrars.com पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट— ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों को धारण करता है, वे एजीएम की सूचना में दिए गर तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है जो कंपनी की वेबसाइट प उपलब्ध है। ऐसे सदस्य एजीएम की सूचना में कम्पनी द्वारा ई-वोटिंग निर्दिष्ट तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग माध्यम से अपना वोट कर दिया है वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं पर एजीएम वे दौरान फिर से वोट डालने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। एक बार सदस्य द्वारा वोट डाले जाने के बाद उसी के बाद में बदलने या फिर से डाले जाने की अनुमति नहीं होगी। एजीएम ई—वोटिंग में भाग लेने के बारे में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले आप उसपर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूएस") और ई-वोटिंग मैनुअल https:// www.evotingindia.com/ पर सहायता अनुभाग के तहत या श्री अजय दलाल वरिष्ट प्रबंध, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, एफ-65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज —1, नई दिल्ली —110020 ईमेलः admin@mcsregistrars.com (011-41406149 से 52) या secretarial@carrier.com को लिख सकते हैं, अथवा श्री नितिन कुंदर (022—23058738) या श्री महबूब लखानी (022—23058543) या श्री राकेश दलवी (022—23058542) से सम्पर्क करें। बोर्ड के आदेशानसार

स्थानः गुरूग्राम

दिनांकः 18 अगस्त, 2023

कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लिमिटेड अनुराग गुप्त

कंपनी सचिव एम. नं. A43500 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

# **DCB BANK**

अधोहस्ताक्षरी डीसीबी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) और धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित एक मांग नोटिस जारी किया गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है नामित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं/ गारंटर से सूचना में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर कहा गया है, जैसा कि तालिका में वर्णित राशि है। . उधारकर्ता और सह—उधारकर्तो राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा उधारकर्ता, सह—ऋणकर्ता / गारंटर और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के तहत नीचे उल्लिखत तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है ।

कर्जदारों तथा सह–कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार डीसीबी बैंक लिमिटेड की बकाया राशि तथा उस पर आगे ब्याज और लागत अदा करने के बाद ही किया ज सकता है।

| क्र.<br>सं. | एग्रीमेंट सं.    | कर्जदार<br>सह–कर्जदार गारंटर<br>एवं कानूनी वारिष | मांग सूचनाकी<br>तिथि/मांग<br>सूचना में बकाया | संपत्ति का विवरण  | कब्जा<br>की तिथि |
|-------------|------------------|--|--|---|------------------|
| 1.          | DRSTDEL00401130, | भूपिन्दर सिंह,                                   | 05-05-2021 /                                 | खेवट सं. 80 / 75 का भाग, खोटी सं. 104, खसरा सं. 322 / 2,  | 11-08-2023       |
|             | HCFEDEL00025751  | हर्षन इंजीनियर्स                                 |  | 448, 449 / 1, 491 / 3, खेवट सं. 81 / 76, खतौनी सं. 105, खसरा  |                  |
|             | एवं              | एवं कुलविन्दर कौर                                |  | सं. 318 / 3, ब्लॉक–एफ, एफ–1680, ग्राम नवादा कोह, आबादी जो<br>अब सैनिक कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, सेक्टर–49, |                  |
|             | HHOMDEL00039047  |  | ₹.28,56,753.54/-                             | फरीदाबाद, हरियाणा—121001  |                  |

तिथिः 18-08-2023 स्थानः फरीदाबाद

IndusInd Bank 🛞

ऋण खाता संख्या DBC02937N

ज्योति अरोड़ा, **उत्तर :** गली

सुनील कुमार अग्रवाल संकल्प प्रफेशनल (आरपी)

(IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-18/10222)

ई—205, एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश पार्ट—॥, नई दिल्ली—110048

पीएनए हाउस, प्रथम तल, प्लॉट नंबर 57 और 57 / 1, गली नंबर 17, निकट ईएसआईसी कार्यालय, एमआईडीसी, अंधेरी (ई), मुम्बई-400093

सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के तहत) वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना की वैकल्पिक तामील

पारा 13(2) के तहत सूचना की वकाल्यक तामाल एतद्वारा निम्नवर्णित कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि चूंकि उन्होंने उनके द्वारा इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल) से प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधा के प्रतिमुगतान में चूक की है, उनकी ऋण उधार सुविधा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की बिहियों में **अनार्जक आरि**त की श्रेणी में सूचीबद्ध की जा चुकी है। तदुपरांत बैंक द्वारा उक्त कर्जदारों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) की धारा 13(2) के तहत मांग सूचनाएं उनके अंतिम ज्ञात प्रते पर जारी की गई थीं, तद्वारा उनसे संबंधित सूचना में विर्णितानुसार बकाया राशि उपरोक्त राशि पर आगे संविदात्मक दर पर ब्याज तथा उक्त सूचनाओं में वर्णित अनुसार अनुसंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ चुकाने की मांग की गई थी। तथापि, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (सरफासी नियमावली) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकाशन द्वारा भी सूचना प्रदान की

कर्जदार और सह-कर्जदार/रॉ का नाम और पता :-- 1. मैसर्स सैफी इंटीरियर्स - इसके पार्टनर श्री मोहम्मद जावेद, श्री मोहम्मद शकील के माध्यम से (कर्जदार श्री मोहम्मद जावेद. 3. श्री मोहम्मद शकील. 4. श्रीमती सायरा बानो नर्गिस (सह-कर्जदार) :- सम्पत्ति सं. 384, पटपड्गंज इंडस्ट्रियल एरिया, ईस्ट दिल्ली दिल्ली–110092. **अन्य पता**ः मकान नंबर 38, गली नंबर 3, निकट आलोक भारती स्कूल, आराम पार्व, शास्त्री नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031 **अन्य पता**ः मकान नंबर बी–101, गली नंबर 4, निकट साई मंदिर, ईस्ट लक्ष्मी नगर, शाकरपुर, दिल्ली–110092

निम्नवर्णित तिथि तक बकाया कूल राशि (आईएनआए)\* :- आईएनआर. 3,53,61,984.79 (आईएनआर. तीन करोड़ तिरेपन लाख इकसठ हजार नौ सौ चौरासी तथ प्र<mark>तिभृत आस्तियाँ/बंबक सम्पत्तियों का वर्णन :─ सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :</mark> प्लॉट नंबर 384, क्षेत्रफल परिमाप 450 वर्ग मीटर, रिश्वत एफ.आई.ई. पटपड़गंज इंडस्ट्रियर एरिया, दिल्ली─110092 **जिसकी चौडददी निम्नानुसार है :─ पूरब :** प्लॉट नंबर 385, **दक्षिण :** रोड, **परिचम :** प्लॉट नंबर 373, **उत्तर :** प्लॉट नंबर 383

एनपीए की तिथि :- 06-07-2023 मांग सूचना की तिथि :- 11-08-2023

कर्जदार और सह–कर्जदार/रों का नाम और पता :– 1. श्री रमेश कुमार (कर्जदार), 2. सुश्री धरम देवी (सह–कर्जदार) :– मकान नंबर 199–सी, जीवन नगः सोनीपत, हरियाणा—131001 **अन्य पता :** मकान नंबर 965 ए—19, मकान नंबर 199 का भाग, पूर्वी भाग, आबादी, जीवन नगर, सोनीपत, हरियाणा—131001

एनपीए की तिथि :- 23-06-2023 मांग सूचना की तिथि :- 11-08-2023 ऋण खाता संख्या HDT00050N निम्नवर्णित तिथि तक बकाया कुल राशि (आईएनआर)\* :- आईएनआर. 9,27,290.56 (आईएनआर. नौ लाख सत्ताईस हजार दो सौ नब्बे तथा पैर प्रतिनृत आस्तियाँ/ बंदक सम्पतियाँ का वर्णन ≻ सम्पति के सभी अंश एवं खंड : सम्पति परिमाप 53 वर्ग गज, मकान नंबर 965 ए−19, मकान नंबर 199 का भाग, पूर्वी भाग, आबादी, रिश्वत जीवन नागर, एमसी सीमाओं के भीतर, सोनीपत, हरियाणा−131001, पूरव : मकान नंबर 201, दक्षिण : मकान नंबर 198, परिचम : मकान नंबर 199 का बाकी हिस्सा,

हम एतदहारा इसमें वर्णित कर्जवार से संबंधित मांग सूचना में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित बकाया राशि उस पर आगे व्याज तथा लागत, प्रमारों, खर्चों इत्यादि के साथ इर सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग करते हैं, जिसमें असफल रहने पर हम उपरोक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियग सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की माग करते हैं, ाजसम असफल रहन पर हम उपरावत प्रातमूत आस्ता(या)/अबल सम्पाता(या) क ाबरूद उपता आधानयम की घारा 13(4) और लागू नियमों के तहत कार्यवाही आरंभ करने हेतु स्वतंत्र होंगे, जिसमें प्रतिभृत आस्ति का काजा उचन कर्जवार(यों)/ सह–कर्जवार(यें)/ कानूनी वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) की पूर्ण जोखिम लागत और परिणामों के आघार पर लेना और उसको बेचना मी शामिल है, जो कंवल उसी तक सीमित नहीं है। कृपया नोट करें कि सरफासी ऐक्ट की घारा 13(13) के अनुसार, आप सभी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभृत आस्तियां को बिक्री, पट्टा या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं कर सकते हैं। उक्त घारा का कोई भी उल्लंघन सरफासी ऐक्ट की घारा 29 तथा/अथवा इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान

. puया नीट करें कि ऐक्ट की धारा 13 की उप–धारा (a) के अनुसार, यदि आईबीएल की बकाया राशि आईबीएल द्वारा उपगत सभी लागतों, प्रमारों तथा खर्चों के सा . आईबीएल को बिक्री या अंतरण के लिए नियत तिथि से पहले चुका दी जाती है, तो आईबीएल द्वारा प्रतिभूत आस्ति बेची या अंतरित नहीं की जाएगी और आईबीएल द्वार प्रतिभूत आस्ति के अंतरण या बिक्री हेतु आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

तिथि : 18-08-2023 स्थान : दिल्ली / हरियाणा वास्ते इंडसइंड बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

-IndiaShelter

diaShelter पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट-15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय: प्लॉट नंबर ए-94/95, पहली मंजिल, शिव गौरी प्लाजा, अखिल विकास योजना, जोधपुर - 342001

सार्वजनिक सूचना-अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत]

वेतीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रतिभृत लेनदार) के पास गिरवी अचल संप

वित्ताय आस्तियों के प्रात्मुविकरण आरं पुनानामण तथा प्रात्मुत ति प्रथित आधान्यम, 2002 के तहत शब्ध सल्टर काश्तर काभरता आधार्यस्य कार्यकर काम की विक्री के लिए सूचना सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (से) और जमानती(यों) या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचना दो जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरधी(प्रभारित नीचे वर्णि अचल संपत्ति, जिसका कर्जा आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभृत लेनदार) द्वारा ले लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जतारें, सह-कर्जदारें अथदा जमानतियों से बकाया देवताओं की वसूली के लिए "क्का है जैसे हैं", "आ है बारी हैं" तबा "जो कुछ भी है बारी हैं" आधार पर 0.00,2023 (नीचाम की तारीख)वर्तें, सह-कर्जदार अवशास्त्र जानिक नीलामी में भाग लेने के लिए एंडमडी राशि बाला मुहरबंद लिफफा आईएसएफसी के प्रधिकृत अधिकारी के पास शाखा/कॉमेरेंट कार्यालय:- प्लॉट-15, 6वी मीजल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय नंबर ए-94/95, पहली मंजिल, शिव गौरी प्लाजा, अखिल विकास योजना, जोधपुर - 342001 पर 03.09.2023 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा

| ऋण खाता सं.                                | कर्जदास् रों )/सह-कर्जदास् रों )/<br>जमानती( यों )/विधिक उत्तराधिकारी<br>( यों )/विधिक प्रतिनिधि( यों ) के नाम | मांग सूचना की तिथि<br>अब तक की राशि   | कब्जे का प्रकार<br>(रचनात्मक∕<br>भौतिक के तहत) | आरक्षित मूल्य (रु.) | धरोहर राशि<br>(रु.) |
|--|--|---|--|---------------------|---------------------|
| HL34MILONS00<br>0005025858/<br>AP-10042494 | वर्षा सोनी एवं रोहित सोनी  | 28.09.2022 रु. 29,70,907.06/-<br>(रुपये उनतीस लाख सत्तर हजार नौ<br>सौ सात एवं छः पैसे मात्र)<br>28.09.2022 तक | रचनात्मक के तहत                                | रु. 25,00,000∕-     | ₹. 02,50,000/-      |

संपत्ति का विवरणः आदिग्वाना द्वारका में फ्लैट नंबर-एम-262, दूसरी मंजिल, फेज->, खसरा नंबर-561/1, 562 562/1 से 562/5 का समस्त भाग, ग्राम दिनाना की वाणी, तहसील एवं जिला जीवपुर माप- बिल्व्ह अप एरिया 944 वर्ग फीट, सुपर एरिया 1180 वर्ग फीट, श्री रोहित सोनी पुत्र सोना के पक्ष में, सीमाएं : पूर्व : अनुपत्तक्ब्र, परिचम : अनुपत्तक्ब्र, उत्तर : अनुपत्तक्ब्र दक्षिण : अनुपत्तक

नियम एवं शर्ते निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र और बिक्री के नियम और शर्ते शाखा/कॉपोरेंट कार्यालयः शाखा/कॉपोरेंट कार्यालयः- शाखा/कॉपोरेंट कार्यालयः- एवॉट-15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यश एरिया. गडगांव, हरियाणा-122002. शाखा कार्यालय : नंबर ए-94/95, पहली मंजिल, शिव गौरी प्लाजा. अखिल विकास योजना. जोधपर द्य 342001 पर सबह 10.00 बजे से शाम 5.00

तिथि : 18—08—2023 स्थान : दिल्ली

- बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस पर उपलब्ध होंगी। अचल संपत्ति आरक्षित मृल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी उपर्यक्त संपत्ति/यों की खरीद के लिए जमा की गई बोलियों/निविदाओं के साथ ऊपर उल्लिखित धरोहर राशि संलग्न की जाएगी। ईएमडी राशि दिल्ली में देव 'इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोरेंश
- लेमिटेड' के पक्ष में होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। उच्चतम बोली लगाने वाले को हमेशा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हो और बशर्ते कि बोली की राशि आरक्षित मुख्य
- उच्यतम बाला एमान पाल का हमता परणल बालायला बाबान कथा जाएगा, बरता कि यह बाला लगान के लए अनुमा रूप सामय है। आर बरता कि बाला का तारा जारावत मूल्य कम न हो। जब प्रसावित कीमत इतनी अपयोग प्रतीत हो कि ऐसा करने की सलाह न दी जा सके तो उच्चतम बोली को अर्थिकोमार/बोकार करना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर होग संभावित बोलीदाता 01.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे से सार्थ 5.00 बजे के बीच पूर्व अनुमति लेकर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
- सफल बोलीवाता के रूप में घोषण व्यक्ति, घोषणा के तुरंत बाद, इंएमडी राशि सहित खरीद राशि/उच्चतम बोली की राशि का 25% 24 घंटे के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करेग और इस तरह की जमा राशि में चुक होने पर, संपत्ति को तुरंत निजी सींध द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा।
- उपरोक्त के अनुसार प्रारंभिक जमा किए जाने की स्थिति में, देय क्रेता धन की शेष राशि का भुगतान क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पृष्टि की तारीख से 15वें दिन उससे पहले सिवाय इसके कि ऐसे दिन या यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर किया जाएगा।
- कपर वर्णित अवधि के भीतर किसी भी भगतान में चक होने की स्थित में. संपत्ति को निजी सींध द्वारा नई नीलामी/बिकी के लिए रखा जाएगा। ईएमडी सहित जमा राशि इंडिया शेल्टर फाइनें अपर अनाच अनाच कार्या कार्यारेम निमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चुककर्ता खरीदार का संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। उपरोक्त बिक्री आईएसएफसी के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगी, इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे संबंधित विभागों/कार्यालयों से वैधानिक और अन्य बकाया जैसे विक्री/संपत्ति क
- विजली बकाया, और सीसाइटी का बकाया की पृष्टिपृष्टि करें। कंपनी संपत्ति पर किसी भी देय राशि के पुगतान की कोई लिम्मेवरी नहीं लेगी। 5) 1% का टीडीएस, यदि कोई हो, उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि के अतिरिक्त देय होगा। भुगतान करनी के पैन में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा कि
- जाना है और चालान की पति कंपनी के पास जमा करनी होगी। ) यह बिकी इस विज्ञापन और निर्धारित निविदा पपत्र में गामिल नियमों और शर्तों के अधीन है।

- सफल बोलीवाता/क्रेता कानून के अनुसार पंजीकृत विक्री प्रमाण पत्र प्राप्त करते हेतु सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और आकास्मक खर्चों को वहन करना होगा।
   प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थिगित/स्थिगित/निविदा को रह करने और बिना किसी पूर्व सूचना के इस बिक्री के किसी भी निय
- और शतों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है।

- इच्छुक बोलीदाता श्री किशन सिंह से मो. नंबर 8094453453 से कार्यालय समय के दौरान (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक) से सम्पर्क कर सकते हैं

# कर्जदार/जमानतदार/बंधककर्ता को 15 दिनों की बिक्री सूचना

र्मुक कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतदारों को धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में उल्लिखत राशि का भुगतान ब्याज और खर्च के साथ नीलामी की तारीख से पहले करने के लिए सूचना दी जा जिसमें विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक: 18.08.2023, स्थान: राजस्थान श्री किशन सिंह, मो. नंबर 8094453453 इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोर्रेशन लिमिटे विशेष कार्य विभाग

🗖 HDFC BANK 5वां तल, अंसल टावर, प्लॉट नंबर 1, जें-ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, होटल सूर्या के सामने, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली—110027 मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना नेम्नलिखित कर्जदारों एवं सह–कर्जदारों ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से निम्नवर्णित प्रतिभृत ऋण प्राप्त किए थे। निम्नलिखित कर्जदारों एवं सह–कर्जदारों

₹5, 5,62,16,264,72 /-

साम्यिक बंधक :- आवासीय फ्लेट नंबर

के ऋण उनकी संबंधित सम्पत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किए गए थे। चूंकि वे संबंधित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्ती का पातन करने में असफल रहे और अनियमित हो गए, अतः उनके ऋण खाते आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में श्रेणीबद्ध किए जा चुके हैं। उनके द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को देय शेष राशि नीचे तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू अनुसार देय होगा जो उसकी संबंधित तिथि से प्रभारित किया जाएगा। प्रतिभूत आस्तियों कर्जदारों एवं सह-कर्जदारों/

| कैश क्रेडिट लोन | 1. मैसर्स तेजस्वी एंटरप्राइजेज, इसकी स्वामिनी  | ₹5. 5,62,16,264.72 / - | 1. साम्यिक बंधक :- आवासीय फ्लैट नंबर             | 29-06-2 |
|-----------------|--|------------------------|--|---------|
| नंबर            | सुश्री तेजस्वी प्रकाश के माध्यम से, कार्यालय :   | 20-07-2023             | 187—ए, प्रथम तल (छत के अधिकार नहीं),             | ĺ       |
| 50200030447963  | 98, प्रथम तल, सेक्टर—2, क्लस्टर—1,   | तक / सूचना             | परिमाप 108 वर्ग मीटर) 129.17 वर्ग गज), स्थित     | ĺ       |
|                 | डीएसआईडीसी, बवाना, दिल्ली, ई–मेल :   | की तिथि :              | कोहट एन्क्लेव, को-आपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग       | ĺ       |
| टर्म लोन्स–     | femmefashionsindia@gmail.com   | 21-07-2023             | सोसायटी लिमिटेड—110028. चौहद्दी (सेल डीड         | ĺ       |
| जीईसीएल–एसएमई–  | (कर्जदार) डी–97, द्वितीय तल, सीतापुरी  |                        | के अनुसार) — पूरब : 45 फीट चौड़ी रोड,            | ĺ       |
| 8111347         | इंडस्ट्रियल एरिया, पार्ट–1, साउथ वेस्ट   |                        | पश्चिम : सर्विस लेन, उत्तर : प्लॉट नंबर 186,     | ĺ       |
|                 | दिल्ली—110045  |                        | दक्षिण : प्लॉट नंबर 188                          | ĺ       |
| एडहॉक           | 2 सुश्री तेजस्वी प्रकाश पुत्री श्री चंदर   |                        | सुश्री तेजस्वी प्रकाश संबोधिती—2                 | ĺ       |
| डब्ल्यूसीडीएल   | प्रकाश :- निवासी बी-4/311सी, केशवपुरम  |                        | 2 साम्यिक बंधक :- फ्लैट नंबर थर्ड ए/150          |         |
| लोन नंबर        | ओंकार नगर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली,   |                        | ए, (प्रथम तल), सेक्टर–3, रचना, निकट महागुन       | ĺ       |
| 50200035401911  | दिल्ली–110035. अन्य पता्:– 187–ए, प्रथम  |                        | मेट्रो मॉल, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर             | ĺ       |
|                 | तल, कोहट एन्क्लेव, पीतमपुरा,   |                        | प्रदेश-201001, परिमाप 85.25 वर्ग मीटर)           | ĺ       |
|                 | दिल्ली–110028. अन्य पता :– 742, ब्लॉक–ए,   |                        | चौहद्दी (डीड के अनुसार) – उत्तर : फ्लैट नंबर     | ĺ       |
|                 | पाकेट—2, सेक्टर—34, रोहिणी, नई दिल्ली.   |                        | थर्ड ए / 149 ए, दक्षिण : फ्लैट नंबर थर्ड ए / 151 | ĺ       |
|                 | अन्य पता :- प्लॉट नंबर 377, श्री विनायक  |                        | ए, पूरव : मकान, पश्चिम : 45 फीट चौड़ी रोड        | ĺ       |
|                 | गार्डन्स, मौजा / ग्राम मेहलान, अजमेर रोड,  |                        | सुश्री अनीता यादव संबोधिती—5                     | ĺ       |
|                 | तहसील– मौजमाबाद, जयपुर. पिन–302026   |                        | 3. साम्यिक बंधक :— आवासीय सम्पत्ति मकान          | ĺ       |
|                 | राजस्थान (स्वामी/गारंटर/ बंधकदाता)   |                        | नंबर 742, ब्लॉक-ए, पाकेट-2, सेक्टर-34,           | ĺ       |
|                 | <ol> <li>श्री विनय कुमार पुत्र श्री चंदर प्रकाश, निवासी<br/>बी–4/311सी, केशवपुरम ओंकार नगर, नॉर्थ</li> </ol> |                        | रोहिणी, नई दिल्ली–110089, परिमाप 26 वर्ग         | ĺ       |
|                 | वा—4/ 311सा, करावपुरम आकार मगर, माथ<br>वेस्ट दिल्ली, दिल्ली—110035. (गारंटर/                                 |                        | मीटर) चौहद्दी (डीड के अनुसार) – उत्तर :          | ĺ       |
|                 | बंधकदाता)  |                        | प्लॉट नंबर 743, पूरब : 9.0 मीटर चौड़ी            | ĺ       |
|                 | <ol> <li>सुश्री हितेषी प्रकाशखेर पुत्री श्री चंदर प्रकाश,</li> </ol>   |                        | रोड, दक्षिण : प्लॉट नंबर 741, पश्चिम :           | ĺ       |
|                 | निवासी बी–4/311सी, केशवपुरम ओंकार  |                        | प्लॉट नंबर 729                                   | ĺ       |
|                 | नगर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली–110035.  |                        | सुश्री तेजस्वी प्रकाश संबोधिती-2                 | ĺ       |
|                 | (गारंटर / बंधकदाता)  |                        | 4. साम्यिक बंधक :- आवासीय प्लॉट नंबर 377,        | ĺ       |
|                 | 5. सुश्री अनीता यादव निवासी सी–56, डीडीए   |                        | श्री विनायक गार्डन्स, मौजा/ग्राम मेहलान,         | ĺ       |
|                 | प्लैट्स, ज्ञान भारती स्कूल के सामने, गोल्फ   |                        | अजमेर रोड, तहसील– मौजमाबाद, जयपुर,               | 1       |
|                 | व्यू अपार्टमेंट्स, साकेत, दिल्ली, अन्य   |                        | राजस्थान (परिमाप 183.33 वर्ग गज                  | ĺ       |
|                 | पता :— फ्लैट नंबर थर्ड ए / 150ए, प्रथम तल,   |                        | अथवा 153.28 वर्ग मीटर) चौहद्दी (डीड के           | ı       |
|                 | सेक्टर—3, रचना, निकट महागुन मेट्रो मॉल,  |                        | अनुसार) – पूरब : 30 फीट चौड़ी रोड,               | ĺ       |
|                 | वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश  |                        | पश्चिम : प्लॉट नंबर 360, उत्तर : प्लॉट नंबर      | l l     |
|                 | (गारंटर / बंधकदाता)  |                        | 378, दक्षिण : प्लॉट नंबर 376,                    | 1       |
|                 | , ,  |                        | सुश्री तेजस्वी प्रकाश संबोधिती–2                 |         |
|                 |  |                        | क्तिगत रूप से लाभार्थ कार्य करते हैं, पर भेजी गः |         |
|                 |  |                        |  |         |

ूर प्रापस प्राप्त हो चुकी हैं, अतः हम यह सूचना प्रकाशित करवाने के लिए बाध्य हुए हैं। एतदद्वारा आपसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपरिवर्णित देयता का निर्वहन, उन पर उनकी संबंधित तिथियों से संविदा दर पर व्याज और अन्य लागतों, प्रमारों इत्यादि सहित, इस सूचना के 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है. जिसमें असफल रहने पर बैंक उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त सभी अथवा किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको उपरोक्त अधिनिय 

वास्ते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

**PUBLIC NOTICE** , Ritu Garg W/o Rajesh Kumar, have lost my property document

is original possession letter on dated 1-11-22 in respect of Flat no. 1 Vindhyachal CGHS Itd Vindhyachal Appt Inder Enclave Paschim Vihar. Delhi-110087 FIR no. LR778376/2023 If found please contact 9968159798

### **PUBLIC NOTICE** NOTICE is hereby given that the Certifiate(S

for 3000 Equity Shares , Folio No 0036288 Certificate No 171797, Distinctive No 296212706 To 296215705 of JINDAL SAW LTD standing in the name(S) of Yadavendra Singh has/have been lost or mislaid and the undersigned has/have applied to the company o issue duplicate certificate(S) for the aforesaid shares.

any person who has a claim to respect of the said shares should lodge such claim with the company at its Registered Office A-1, UPSIDC Industrial Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Mathura District, Uttar Pradesh- 281403 within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate(S).

Name(S) Of shareholder(S) Date: 18/08/2023 Yadavendra Singh Place : Delhi



order@bsmail.in

Business Standard

Insight Out

FORM NO.14 [See Regulation 33(2)

By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, PATNA
2nd Floor, (A, B & F Wing) Karpuri Thakur Sadan, Kendriya Karmachari Parisar (GPOA), Ashiana Digha Road, Patna - 800025

**DEMAND NOTICE** NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961. RC/456/2022 Date: 04-08-2023

HDFC BANK

Versus M/S RRUKMANI GROUP AUTOMOBILES INDIA PVT. LTD AND ORS

(CD 1) M/s. Rrukmani Group Automobiles India Pvt. Ltd. and Ors (Borrower) through its Managing Director Mrs. Renu 35, LGF, South Extension, Part-II New Delhi- 110049, Also At-Rrukmani Flat Showroom, Main Kankarbagh Road, Near Kumhrar Park, Patna.

(CD 2) MR AJEET AZAD (DIRECTOR GUARANTOR). Son of Mr. N.K. Thakur, M/s RRUKMANI GROUP AUTOMOBILES INDIA PVT. LTD. At: C-35, LGF, South Extension, Part- II, New Delhi- 110049, And also at- D-3/3090, Ground Floor, Vasant Kunj, South West Delhi, New Delhi, DELHI-110070.

(CD 3) MRS. RENU AZAD (MANAGING DIRECTOR/GUARANTOR) M/S RRUKMANI GROUP AUTOMOBILES INDIA PVT LTD., AT: C-35 LGF, South Extension, Part-II, New Delhi-110049 And also at D-3/3090, Ground Floor, Vasant Kunj, South West Delhi, Delhi-110070.

(CD 4) MS CHANDNI BHARTI (DIRECTOR/ MORTGAGOR / GUAŔANTOR) M/s RRUKMANI GROUP AUTOMOBILES INDIA PVT. LTD., AT- C-35, LGF, South Extension, Part-II, New Delhi-110049, And also at:- Ram Janki Enclave, Flat No-203, Road No. 5, Sampatchak Rajendra Nagar, Patna, BIHAR-

(CD 5) M/S RUKMANI BUILDTECH LIMITED (CORPORATE/ GUARANTOR) Plot No.35, Basement Block-C, South Extension Part-II, New Delhi, DELHI- 110049.

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL PATNA in **OA/385/2020** an amount of Rs.30469445.66 (Rupees Three Crore Four Lakh Sixty Nine Thousand Four Hundred Forty Five and Paise Sixty Six Only) along with pendentellite and future interest @18% Compound Interest Monthly w.e.f. 09/11/2020 till realization and costs of Rs.150000 (Rupees One Lakh Fifty Thousands Only) has become due against you (Jointly and severally / Fully / Limited).

- You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
- Your are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing. You are hereby ordered to appear before the undersigned on
- **02/09/2023** at 10:30 a.m. for further proceedings. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay: (a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate / execution proceedings.

(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due. Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date

Sd/- Recovery Officer DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, PATNA

HDFC BANK

विशेष संचालन विभाग

5वां तल,अंसल टॉवर, प्लॉट सं. 1, जे-ब्लॉक, होटल सूर्या के सामने, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027

<u>मांग सूचना</u>

04/08/2023.

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनिर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना नम्नलिखित उघारकर्ताओं और सह—उघारकर्ताओं ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से नीचे वर्णित प्रत्यामत ऋण का। लाभ उठाया है। नीचे उल्लेखित उघारकर्ताओं औ निर्मालित प्रयोक्तिका आर कि ज्यारियों जो पर प्रशिक्ति बंध लिनिक्त के नीच पार्थित प्रयोक्ति अप की लोग उठावा हो गय उटलाखत उद्यारियों के बंध के सह उद्योक्ति के नियम जिल्ला के स्विधित संपत्तियों के बंधक बंदा प्रत्याभूत किए गए हैं। चुकि वे संबंधित क्यानीतों के नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए थे, इसलिए आरबीआई के दिशा—निर्देशों के अनुसार उनके ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उनके द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को देय राशि का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है और उक्त राशियों पर आगे लागू ब्याज भी देय होगा और इसे उनकी संबंधित दिनांकों से प्रमारित किया जाएगा।

| सुविधा का प्रकार<br>खाता सं. | 1 | उधारकताआ/ सह—उधारकताआ/<br>बंधककर्ता का नाम  | 13(2) के अनुसार<br>बकाया/सूचना दिनांक   | प्रत्याभूत संपत्तियों का विवरण   | एनपाए<br>दिनांक |
|------------------------------|---|---|---|--|-----------------|
| নকব ऋण<br>(50200013192630    | 2 | . मेसर्स शिव ट्रेडिंग कंपनी अपने मलिक श्री खयाली राम<br>क माध्यम से पता: कुकान सं. —386/3, किराना<br>मण्डी, गाजियाबाद — 201001, उत्तर प्रदेश<br>(उचारकर्ता).<br>श्री खयाली राम पुत्र श्री मांगू राम नवासी — म.<br>सं.160/1 बाग मातियारी, गाजियाबाद —<br>201001, उत्तर प्रदेश (मालिक / गारं टर/<br>बंधककर्ता).<br>श्रीमती बिमला देवी (गारंटर) पत्नी श्री खयाली राम<br>निवासी — म. सं.160/1 बाग मातियारी, गाजियाबाद<br>—201001, उत्तर प्रदेश (गारंटर/बंधककर्ता) | 1,32,84,862.95/—<br>दिनांक.<br>20.07.2023 तक/<br>सूचना दिनांक :<br>21.07.2023 | 1. न्यायसंगत बंधक प्लॉट सं.137, नया सं.<br>160-ए, धरमपुरा, गाजियाबाद, उ.प्र. बिक्री<br>विलेख दिनांक 09.11.2015 श्री बिजेंद्र कुमार<br>द्वारा श्री खयाली राम और श्रीमती बिमला देवी के<br>पक्ष में निष्पादित उप पंजीयक—2, गाजियाबाद के<br>कार्यालय में हस्ताबरित 09.11.2015 को<br>दस्तावेज सं. 8747 बही सं.1, जिल्द सं. 2165<br>पृष्ठ सं.86 से 95 पर, बंधककर्ताः श्री खयाली राम<br>और श्रीमती बिमला देवी |                 |

चूंकि आपको उस पते पर भेजी गई सूचना जिसमें आप मूल रूप से रहते हैं / व्यवसाय करते हैं / व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते है, हमें वापस नहीं किय ाया है, इसलिए हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए विवश हैं। एतद् द्वारा आपको उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत इस सूचना के 60 दिनों के भीतर अनुबंधित ब्याज दर के साथ उनकी संबंधित दिनांक और अन्य लागतों , प्रभारों आदि से उपरोक्त दे यता का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है , ऐसा न होने पर बैंक उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13( 13) की शर्तों के अनुसार, आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को स्थानांतरित नहीं करेंगे।

प्रति एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 18.08.2023 स्थान : दिल्ली

HDFC BANK विशेष संचालन विभाग 5वां तल,अंसल टॉवर, प्लॉट सं. 1, जे—ब्लॉक, होटल सूर्या के सामने, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली—110027

> <u>माग सूचना</u> वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से नीचे वर्णित प्रत्याभूत ऋण का। लाम उठाया है। नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं औ सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनके संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए थे, इसलिए आरुबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उनके द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को देय राशि का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है और उक्त राँशियों पर आगे लागू ब्याज भी देय होगा और इसे उनकी संबंधित दिनांकों से प्रभारित किया जाएगा। estaŭ/ma remasataŭ/ 12(2) = 25

| l | सुावधा का प्रकार/<br>खाता सं. | उधारकताआ/ सह—उधारकताआ/<br>बंधककर्ता का नाम  | वकाया/सूचना दिनांक            | प्रत्याभूत संपत्तियों का विवरण  | एनपाए<br>दिनांक |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|
|   | नकद ऋण<br>(50200015602121)    | <ol> <li>मैसर्स शिवा कंस्ट्रवशन अपने मलिक श्री<br/>मंजीत सिंह के माध्यम से पता: जी-124,<br/>गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध<br/>नगर-201306 (उ.प्र) (उधारकर्ता),</li> <li>श्री मंजीत सिंह मालिक मैसर्स शिवा कंस्ट्रवशन<br/>पुत्र श्री यम नगीना सिंह जी-124, गामा-2,<br/>ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201306<br/>(उ.प्र)(मालिक/गारंटर/बंधककर्ता)</li> <li>श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री राम नगीना सिंह<br/>(गारंटर) निवासी- जी-124, गामा-2, ग्रेटर<br/>नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201306<br/>(उ.प्र)(गारंटर/बंधककर्ता)</li> </ol> | /सूचना दिनांक :<br>21.07.2023 | 1. न्यायसंगत बंधक:- संपत्ति धारक मकान सं. जी-124, ब्लॉक जी, सेक्टर गामा-II, ग्रेटर नो एडा, गाँ तम बुद्ध नगर-201306 (उ.प्र), सीमानकन प्रकार :- पूर्व : 12 फुट चौडी सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. 103, उत्तर : 12 फुट चौडी सड़क, दक्षिण : 12 फुट चौडी सड़क, दिक्षण : न्यायसंगत बंधक:- संपत्ति धारक प्लॉट सं. ए-36, ग्राम बोकता कैशवपुर, सेक्टर-23, गिदा, तहस्तील- शाहजानवा, जिला गोरखपुर (उ.प्र.) सीमांकन (विलेख अनुसार):- पूर्व : पॉवर ग्रीड प्रविच : 18 मीटर चौडी सड़क, उत्तर : प्लॉट सं. ए-35, बंधककर्ता: श्री |                 |

चुंकि आपको उस पते पर भेजी गई सुचना जिसमें आप मूल रूप से रहते हैं /व्यवसाय करते हैं /व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते है, हमें वापस नहीं किया गया है, इसलिए हम बुक्त अनुमान के प्रकाशित करने के दिना जितन हैं। स्वार्थ के राष्ट्र के साथ के प्रकाशित करने के दिन के मीतर अनुबधित खाज दर के साथ उनकी संबंधित दिनांक और अन्य लागतों, प्रभारों आदि से उपरोक्त दे यता का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न होने पर बैंक उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) वे तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार, आप बिक्री, पहें य ान्यथा के माध्यम से उपरोक्त प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को स्थानांतरित नहीं करेंगे।

SCOOTERS INDIA LIMITED

दिनांक: 18.08.2023.

प्रति एचडीएफसी बैंक लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी

Chairman & Managing Director

#### (A Government of India Enterprise) CIN No.: L25111UP1972G01003599 Regd. Office: GPO Post Bag No. 23, Sarojini Nagar, Lucknow - 226008 Ph.: 0522 - 2476242 Statement of Unaudited Results for the Quarter ended on 30.06.2023 (Rs. in Lacs) Quarter Quarter Quarter Year to date Figures for the period ended Ende Ended Ende Particulars 30.06.2023 31.03.2023 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2022 Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited 1 Total income from operations (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Net Profit for the period (before Tax (1.578.76) (92.38 (136.38)(1.578.76)(136.38)Exceptional and/or Extraordinary items) (1.578.76 (1.578.76)3 Net Profit for the period before tax (92.38)(136.38)(136.38)(after Exceptional and/ or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period (1.578.76) (92.38)(136.38)(1.578.76)(136.38)after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (1,578.76 Total Comprehensive Income for the (92.38)(136.38)(1,578.76)(136.38)period [Comprising Profit / (Loss) fo the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

Equity Share Capital 8,727.39 8,727.39 8,727.39 8,727.39 8,727.39 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) 8 Earnings Per Share ( before extraordinary items) ( of Rs. 10 /- each) for continuing and discontinued operations (1.81)(0.16)1. Basic (0.16)Diluted (1.81 (0.11)(1.81)

Notes: 1. The above is an extract of detailed format of Quarterly/Yearly Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/half yearly Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company' vebsite (www.scootersindia.com). 2. These results have been prepared in accordance with the provisions of Section 133 of th Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India.

For Scooters India Limited Amit Shriyastaya

Place: Lucknow Date: 11.08 2023

प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड